

Seat No. : \_\_\_\_\_

# DC-104 (H)

December-2021

B.Com., Sem.-III

203 : Taxation – I

Time : 2 Hours]

[Max. Marks : 50

(Hindi Version)

- निर्देश : (1) खण्ड – I के सभी प्रश्नों के अंक समान हैं ।  
(2) खण्ड – I में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।  
(3) खण्ड – II अनिवार्य है ।

## खण्ड – I

1. निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए : 20
- (1) प्रत्यक्ष तथा परोक्ष कर से क्या तात्पर्य है ? प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए ।  
(2) करदाता की परिभाषा दीजिए ।  
(3) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पर टिप्पणी लिखिए ।  
(4) 'निपटान आयोग' पर टिप्पणी लिखिए ।
2. निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए : 20
- (1) स्थायी खाता नंबर (PAN) पर टिप्पणी लिखिए ।  
(2) श्री महेश की वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तुत की गई आय का विवरण निम्नानुसार है :
- |   | ₹         |
|---|-----------|
| (i) लंदन की संपत्ति से लाभ (भारत में नहीं लाई गई)             | 4,00,000  |
| (ii) वडोदरा की संपत्ति विक्रय से लाभ यू.एस.ए. में प्राप्त हुआ | 2,00,000  |
| (iii) अहमदाबाद से संचालित पेरिस के व्यवसाय से लाभ             | 11,00,000 |
| (iv) दुबई में पूर्व भारतीय स्वामी से प्राप्त पेंशन            | 3,50,000  |
- कर-निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए कुल सकल आय की गणना करें :
- (I) यदि वे 'सामान्य निवासी' हो,  
(II) यदि वे 'निवासी' हो परंतु 'सामान्य निवासी' न हो,  
(III) यदि वे 'अनिवासी' हो

3. श्री विष्णु अहमदाबाद में स्थित कंपनी में नौकरी करते हैं। निम्न जानकारी के आधार पर कर-निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए उनके कर-योग्य वेतन की गणना करें : 20
- (1) मूल वेतन ₹ 50,000 प्रति माह, दिसंबर-2020 तक। पश्चात् वेतन में ₹ 10,000 की बढ़ोतरी होती है।
  - (2) महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50% है।
  - (3) शिक्षा भत्ता ₹ 500 प्रति माह तीन बालकों के लिए।
  - (4) मनोरंजन भत्ता ₹ 600 प्रति माह।
  - (5) कंपनी द्वारा उनको 1800cc की एक गाड़ी ड्राइवर सहित दोनों उपभोग के लिए दी गई है। जिसका पूर्ण खर्चा कंपनी उठाती है।
  - (6) कंपनी के स्वामी का फ्लैट उनको निवास हेतु दिया गया है। कंपनी की ₹ 3,00,000 की घरेलू चीजें भी इसमें शामिल हैं। इस फ्लैट के लिए कंपनी प्रति माह ₹ 1,000 उनके वेतन से काट लेती है।
  - (7) वैध प्रोविडेंट फंड में मालिक (स्वामी) का योगदान मूल वेतन का 15% है।
  - (8) वैध प्रोविडेंट फंड पर प्राप्त वार्षिक ब्याज 12.5% प्रतिशत के हिसाब से ₹ 12,500 जमा हुआ है।
  - (9) उन्होंने ₹ 200 प्रति माह के हिसाब से व्यवसाय कर भरा है।

4. श्री अशोक तीन मकान के मालिक हैं। जिसकी जानकारी नीचे दी गई हैं : 20

विवरण	मकान 1 ₹	मकान 2 ₹	मकान 3 ₹
उपभोग	किराए पर	स्व: उपभोग	स्व: उपभोग
निगमिय मूल्यांकन	2,00,000	1,80,000	3,00,000
उचित भाड़ा	1,80,000	2,40,000	2,00,000
प्रमाणित भाड़ा	2,20,000	1,50,000	3,50,000
प्राप्य भाड़ा (प्रति माह)	20,000	—	—
मालिक द्वारा प्रदत्त निगम कर	10,000	5,000	15,000
किराएदार द्वारा प्रदत्त निगम कर	2,000	—	—
बीमा प्रीमियम	6,000	5,000	6,000
मरम्मत	10,000	4,000	—
अवकाश अवधि	1 माह	—	—
मकान के ऋण का ब्याज	40,000	30,000	25,000
निर्माण के समय ऋण का ब्याज	30,000	30,000	30,000
निर्माण पूर्णता वर्ष	2017-18	2005-06	2012-13

कर-निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए श्री अशोक की मकान-संपत्ति से आय शीर्षक के तहत कर-योग्य आय की गणना करें।

खण्ड – II

5. निम्न सभी प्रश्नों के लिए एक से अधिक विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करें। (कोई पाँच) 10

- (1) निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है ?
- (a) GST (b) आयकर  
(c) VAT (d) इनमें से कोई नहीं
- (2) निम्न में से कौन सी एक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति है ?
- (a) शाह एण्ड सन्स (b) अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन  
(c) गुजरात युनिवर्सिटी (d) इनमें से कोई नहीं
- (3) केन्द्र सरकार से पुरस्कार में प्राप्त राशि \_\_\_\_\_ है।
- (a) कर-मुक्त (b) करपात्र  
(c) ₹ 2,00,000 से अधिक करपात्र (d) इनमें से कोई नहीं
- (4) उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत प्राप्त उपदान की अधिक से अधिक कर-मुक्त राशि \_\_\_\_\_ है।
- (a) ₹ 10,00,000 (b) ₹ 20,00,000  
(c) ₹ 30,00,000 (d) इनमें से कोई नहीं
- (5) महेन्द्र दिनांक 31/03/21 को 30 वर्ष और 9 माह की नौकरी के पश्चात् एक कंपनी से सेवा-निवृत्त होते हैं। उनको ₹ 12,00,000 का उपदान प्राप्त हुआ। कलेण्डर वर्ष 2020 तथा 2021 में उनका औसत प्रति माह वेतन क्रमशः ₹ 60,000 तथा ₹ 64,000 था। कर-निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए करपात्र उपदान की राशि कितनी होगी ?
- (a) ₹ 12,00,000 (b) ₹ 2,82,000  
(c) ₹ 2,40,000 (d) इनमें से कोई नहीं
- (6) सुरेश ने निजी फ्लैट किराये पर दिया है। उचित भाड़ा तथा प्राप्त भाड़ा क्रमशः ₹ 80,000 तथा ₹ 78,000 हैं। अदत्त म्युनिसिपल (निगम) कर ₹ 8,000 है। इस फ्लैट के लिए उसने कोई ऋण नहीं लिया है। इस फ्लैट की कर-पात्र आय कितनी होगी ?
- (a) ₹ 72,000 (b) ₹ 78,000  
(c) ₹ 56,000 (d) इनमें से कोई नहीं

- (7) आदेश प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर करदाता या आयकर विभाग द्वारा अपील अधिकरण में अपील दाखिल कर सकता है ?
- (a) 60 दिन (b) 90 दिन  
(c) 120 दिन (d) इनमें से कोई नहीं
- (8) निम्न में से कौन सी सत्ता मूल्यांकन अधिकारी को नहीं सौंपी गई है ?
- (a) पेनल्टी लगाने की सत्ता  
(b) मूल्यांकन में छूट (बच) गई आय का पुनः मूल्यांकन करने की सत्ता  
(c) किसी अपील का निपटान करने की सत्ता  
(d) इनमें से कोई नहीं
- (9) व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार जो धंधे या व्यवसाय से आय प्राप्त करता हो, उनको कौन सा ITR भरना पड़ेगा ?
- (a) ITR 1 (b) ITR 2  
(c) ITR 3 (d) इनमें से कोई नहीं
- (10) \_\_\_\_\_ राशि कर भुगतान योग्य हो तभी अग्रिम कर भुगतान-योग्य बनता है ।
- (a) ₹ 1,000 से अधिक (b) ₹ 5,000 से अधिक  
(c) ₹ 10,000 से अधिक (d) इनमें से कोई नहीं
-